



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 फाल्गुन 1939 (श०)  
(सं० पटना 216) पटना, सोमवार, 12 मार्च 2018

---

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना  
5 दिसम्बर 2017

सं० 1806—श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम—महथौर, पोस्ट—पुतई, थाना—मनीगाछी, जिला—दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1743 है।

पर्षदीय पत्रांक 332 दिनांक 21.06.2014 द्वारा अंचल अधिकारी, तारडीह (दरभंगा) से न्यास की छानबीन कर, न्यास की चल—अचल सम्पत्ति, वर्तमान व्यवस्था, विकास, न्यास के आय का स्रोत, न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा एवं न्यासधारी के संबंध में अपने मंतव्य के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का आग्रह किया गया था जिसके आलोक में अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक 411 दिनांक 02.05.2015 द्वारा यह प्रतिवेदित किया कि इसके सेवैत देवनारायण दास के मृत्यु हो जाने के कारण मंदिर में पूजा—पाठ बंद है और कुल 63 व्यक्ति मंदिर की भूमि को अतिक्रमित किये हुये हैं और उन्हें खाली करने हेतु नोटिस की प्रक्रिया की जा रही है।

न्यास के सुचारु प्रबंधन, सुव्यवस्था एवं भगवान के राग—भोग हेतु एक न्यास समिति गठन हेतु डा० उपासना सिंह ने उप—विकास आयुक्त, दरभंगा को अध्यक्ष मनोनित करते हुए दस व्यक्तियों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया, जिनका चरित्र सत्यापन थानाध्यक्ष, मनीगाछी, दरभंगा से पर्षदीय पत्रांक 1403, दिनांक 31.07.2015 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा से पर्षदीय पत्रांक 818 दिनांक 14.07.2017 द्वारा मांगा गया। इसके आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा ने ज्ञापांक 1871 दिनांक 08.08.2017 द्वारा थानाध्यक्ष के प्रतिवेदन की छायाप्रति भेजी। थानाध्यक्ष ने भी अपना प्रतिवेदन दिनांक 28.07.2017 में प्रतिवेदित किया है कि छः सदस्यों के नाम व पता सही है तथा इन लोगों के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत नहीं है।

अतः न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु उप—विकास आयुक्त, दरभंगा की अध्यक्षता में कुल सात व्यक्तियों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रशासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते

हुए श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम—महथौर, पोस्ट—पुतई, थाना—मनीगाछी, जिला—दरभंगा की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मंदिर, महथौर, दरभंगा न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “ श्री राम जानकी मंदिर, महथौर, दरभंगा न्यास समिति” होगा।
2. श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम—महथौर, पोस्ट—पुतई, थाना—मनीगाछी, जिला—दरभंगा तथा इसकी समस्त चल—अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम—महथौर, पोस्ट—पुतई, थाना—मनीगाछी, जिला—दरभंगा न्यास समिति में निहित होगा।
3. न्यास समिति न्यास हित में प्रशासनिक एवं राजस्व सम्बंधी सभी कार्य करेगी।
4. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा—अर्चना, राग—भोग, उत्सव—समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
5. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय—व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेंगे।
7. न्यास समिति के आय—व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
8. मन्दिर में आने वाले आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद—भाव नहीं किया जायेगा। विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
9. मन्दिर परिसर में दानपात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
10. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी।
11. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय—व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपलब्धता में वरीय सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
13. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी।
14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
15. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
16. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा।
17. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :—

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. उप—विकास आयुक्त, दरभंगा,                          | — पदेन अध्यक्ष, |
| 2. डॉ० उपासना सिंह पति सुनील कुमार सिंह,             | — सचिव          |
| 3. श्री अश्वनी कुमार सारंगी पे० श्री काशीनाथ सारंगी, | — कोषाध्यक्ष    |
| 4. श्री गणेश ठाकुर पे० उदगार ठाकुर,                  | — सदस्य         |
| 5. श्री श्रवण कुमार मिश्र पे० स्व० भुवनेश्वर मिश्र,  | — सदस्य         |
| 6. श्री सुविन्द्र कुमार रथ पे० श्री जालंधर रथ,       | — सदस्य         |
| 7. श्री भुवे साहू पे० स्व० नोखे साहू,                | — सदस्य         |

सभी निवासी ग्राम-महथौर, पोस्ट-पुतई, थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा।

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षों का होगा।

आदेश से,  
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,  
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 216-571+10 -डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>